



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2002/फाल्गुन 15, 1923

No. 57]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2002/PHALGUNA 15, 1923

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2002

विषय : उन देशों के संबंध में परिधान व निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000—2004), जहां इस प्रकार के निर्यात को वस्त्र व क्लोदिंग समझौते के प्रावधान के तहत कवर किया जाता है।

सं. 1/15/2001-निर्यात-I—उपर्युक्त विषयक संख्या 1/128/99-निर्यात-1 दिनांक 12 नवंबर, 1999 की ओर ध्यानआकर्षित किया जाता है, जिसे तदुपरांत दिनांक 10 दिसंबर, 1999, 7 फरवरी, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना, 13 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/68/2000-निर्यात-1, 21 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/21/2000-निर्यात-1, दिनांक 20 नवंबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/133/2000-निर्यात-1, 8 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 13/33/2001-निर्यात-1, 24 जनवरी 2001 की अधिसूचना संख्या 1/149/99-निर्यात-1 तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 1/21/2001-निर्यात-1 एवं 1/161/2000-निर्यात-1 द्वारा संशोधित किया गया था।

2. इस नीति के पैरा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2001 की हकदारी के प्रति निर्यात नीति के पैरा 12(vii) से (ix) प्रचालन से निम्नलिखित तरीके से छूट प्रदान की है।

“(vii) उस निर्यातक का, ई.एम.डी./बी.जी./एल.यू.टी. पूर्व दिनांकित चैक पूरी राशि में जारी किए जाएंगे, जो हकदारी का 75% अथवा उसका पूरा भाग निर्यात करता है। तथापि, धीमी गति से उपयोग की जाने वाली मर्दों के मामले में, यह प्रतिशत 50% अथवा उससे अधिक रहेगा।

(viii) ‘कोटा व्यवस्था प्राधिकारण’ उन मामलों में उपयोगिता में गिरावट के अनुपात में, ई.एम.डी./बी.जी. को जब्त कर लेगा, जब शीघ्र उपयोग की जाने वाली मर्दों में 50% या अधिक परन्तु 75% से कम उपयोगिता रहेगी और धीमी गति से उपयोग की जाने वाली मर्दों में 40% या अधिक परन्तु 50% से कम उपयोगिता रहेगी।

- (ix) यदि उपयोगिता उपर्युक्त से कम है अर्थात् शीघ्र उपयोग की मदों के मामले में 50% तथा धीमे उपयोग की मदों के मामलों में 40% तब अग्रिम जमाराशि/बैंक गारण्टी/एल.यू.टी./पूर्व दिनांकित चेक को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा ।"
3. उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित, अधिसूचना की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2002

Subject : Garment and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy (2000—2004), in respect of countries where such exports are covered by restraints under the provision of the Agreement on Textiles and Clothing.

No. 1/15/2001-Exports-L—1. Attention is invited to Notification No.1/128/99

Exports-I dated 12th November, 1999, which was amended subsequently by Notifications of even number dated 10th December, 1999, 7th February, 2000, Notification No.1/68/2000 dated 13th June, 2000, Notification No.1/21/2000-Exports-I dated 21st July, 2000, Notification No.1/133/2000-Exports-I dated 20th November, 2000, Notification No.13/33/2000-Exports-I dated 8th January, 2001, Notification No.1/149/99-Exports-I dated 24th January, 2001, Notification No.1/121/2001 and Notification No.1/161/2000-Exports-I dated 30th April, 2001 on the above mentioned subject.

2. In exercise of the powers conferred by Para 20 of the Policy, the Government of India hereby grants relaxation from the operation of Para 12(vii) to (ix) of the Policy for exports against entitlements of the year 2001, in the following manner:-

“(vii) The EMD/BG/LUT/Post Dated Cheque of an exporter who exports 75% or more of the entitlement would be released in full. However, in the case of slow moving items, this percentage will be 50% or more.

(viii) The ‘Quota Administering Authority’ shall forfeit the EMD/BG, in case utilisation is 50% or more but less than 75% in case of fast moving items and 40% or more but less than 50% in case of slow moving items, proportionate to the shortfall in utilisation.

(ix) If utilisation is less than the above, i.e. 50% in case of fast moving items and 40% in case of slow moving items, the EMD/BG/LUT/Post Dated Cheque shall be forfeited in full.”

3. All other terms and conditions of the Notification mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.